



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 मार्च, 2024

चैत्र 1, 1946 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उ० प्र०

पी०सी०एफ० भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ

संख्या 43/रा०नि०आ०-4/न०नि०-126-23-2024

लखनऊ, 21 मार्च, 2024

अधिसूचना

प०आ०-84

आयोग द्वारा पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 69/नि०स०/रा०नि०आ०/94, लखनऊ दिनांक 2 सितम्बर, 1994 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों में निर्वाचन आयोग के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के परामर्श से निदेशक स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) पदाभिहित किया गया है, को निरस्त करते हुए, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 12ख की उपधारा (2-क) के प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 66/9-1-24-1780525, दिनांक 26 फरवरी, 2024 के माध्यम से प्राप्त हुए राज्य सरकार के परामर्श/सहमति के क्रम में संयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) पदाभिहित किया जाता है।

2-उपरोक्तानुसार पदाभिहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय), राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण के अधीन राज्य के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण एवं प्रकाशन और निर्वाचन के संचालन सम्बन्धी समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाएगा।

आज्ञा से,
राज प्रताप सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
(पंचायत एवं स्थानीय निकाय)
उत्तर प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1193 राजपत्र-2024-(3259)-599+25=624 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।